



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 1977/श्रावण 17, 1899

No. 140]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 1977/SRAVANA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th August 1977

SUBJECT :—Export of Cotton Yarn from India under OLG-3 during 1977.

**No. 16-ETC (PN)/77.**—In partial modification of the Public Notice No. 7-ETC (PN)/77 dated 15-2-1977 relating to the export policy of cotton yarn for 1977, it has been decided that export of cotton yarn of all types and counts, except folded cotton yarn of three-ply and higher ply in all types and counts and tyre-cord yarn, is banned

2. Export of cotton yarn for which contracts have already been registered with the Cotton Textile Export Promotion Council is also banned except in cases where irrevocable commitments have been made by establishing Letters of Credits which should have been accepted by the Indian banks upto 28th July, 1977 (*i.e.* prior to 29th July, 1977). The pre-ban commitment will be allowed by the licensing authority by endorsement on the shipping bills after the necessary authorisation has been issued by the Cotton Textile Export Promotion Council.

3. In respect of the varieties of cotton yarn, the export of which is permissible, vide the amended OGL-3, the conditions and the procedures of exports as enumerated in the Public Notice No. 7-ETC (PN)/77 dated 15-2-1977 will remain unchanged

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports and Exports

## वाणिज्य मंत्रालय

## सार्वजनिक सूचना

## निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1977

**विषय.**—1977 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस संख्या 3 के अन्तर्गत भारत से सूती धागे का निर्यात

सं० 16-ईटीसी(पीएन) 77 — 1977 के लिए सूती धागे की निर्यात नीति के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना सं० 7-ईटीसी-(पीएन) 77 दिनांक 15-2-1977 के आंशिक आशोधन करने पर यह निश्चय किया है कि सभी किस्मों और काउन्ट्स में 3 प्लाई और इससे अधिक प्लाई के फोल्ड किए हुए सूती धागे और टायर कार्ड धागे को छोड़कर सभी प्रकार और काउन्ट्स के सूती धागे का निर्यात निषेध है।

2. सूती धागे के ऐसे निर्यात भी निषेध हैं जिनके लिए सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के पास पहले से संविदाएं पंजीकृत कर दी गई हैं किन्तु यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां साख पत्र स्थापित करने के द्वारा अपरिवर्तनीय वायदे कर दिए गए हों और जो 28 जुलाई, 1977 तक (अर्थात् 29 जुलाई, 1977 से पूर्व) भारतीय बैंको के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हों। निषेध से पूर्व के वायदों की स्वीकृति, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा आवश्यक प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद ही लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा पोलवदान बिल पर पृष्ठांकन करने के द्वारा दी जाएगी।

3. सूती धागे की कोटियों के सम्बन्ध में जिनका निर्यात अनुमेय है, देखें संशोधित खुला सामान्य लाइसेंस सं० 3, सार्वजनिक सूचना सं० ईटीसी (पीएन) 77 दिनांक 15-2-1977 में उल्लिखित शर्तें और निर्यात की क्रियाविधियां अपरिवर्तनीय रहेंगी।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

संज्ञा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977